Meesho sends legal notice over alleged smear campaign

ONLINE MARKETPLACE MEESHO has sent a legal notice to certain social media influencers and also to the influencers and also to the ones who approached these influencers to participate in an alleged smear campaign against the company.

Social media users, who had followers in thousands, were asked to talk down Meesho

and its investors on their pro-files across platforms. These influencers were assured mon-etary benefits in exchange for

etary benefits in exchange to these posts.

"On June 2, 2022, Twitter user Ravisutanjani Kumar (@Ravisutanjani) exposed a concerted campaign against Meesho wherein several influencers put out a series of tweets tagging the company's investors, with an aim to allegedly malign the com-pany's reputation by spreading falsehood and lies. Following talsehood and lies. Following the exposé, some influencers acknowledged that said tweets were paid promotions while others deleted their posts," Meesho said in a statement. "This is not the first time



that Meecho has been targeted by those with vested interests tooking to defame the ed-tooking of defame the ed-ment of the ed-tooking of the ed

screenshot of the same," Udita Pal, a businesswoman, said in one of her tweets.

Meesho will continue to monitor the situation and consider strict legal recourse against those spreading misinformation and lies about the company, the statement concluded.

• CAUTIOUS RECRUITER SENTIMENT DUE TO INFLATION Hiring in May up 9% y-o-y

Industries such as telecom, BFSI, and import/export exhibited optimistic iob trends

FE BUREAU Mumbai, June 7

THE JOB MARKET continues to show growth for the second consecutive month of financial year 2022-2023, with a bench-mark year-on-year recovery of mark year-on-year recovery of 9% in May 2022. However, amid worries over high infla-tion driving up costs due to the tion driving up costs due to the current socio-economic sce-nario globally, the Monster Employment Index was down by 4% month-on-month reflecting cautious recruiter sentiments this month. Industries such as telecom, BFSI, and import/export exhibited optimistic job trends contributing to the overall

exhibited optimistic job trends contributing to the overall annual growth in job posting activity. Also, hiring picked up in tier-2 cities, indicating post-pandemic recovery, while tier-1 cities continued to fuel

ish Aggarwal at the company' headquarters and are also visit ing the Ola Futurefactory in

Krishnagiri, Tamil Nadu this week, sources aware of the mat-

ter said.
Ola Electric, they said, has ini-



import/export segment witnessed a rise by 47%, the highest ever increase recorded over the past year

saw hiring rise by 29%, exhibiting a full recovery beating declines seen over the last four

Sekhar Garisa, CEO - Mon-ster.com, a Quess company said, "The beginning of FY23 has shown positive hiring scales given the anticipated 5G rollout and the recovery of sev-eral business segments across the country. So far, the Indian job market is faring well isation efforts. despite the current sentiment on sobered hiring. Recruiters have not scaled down their ambitions to hire talent and there is most definitely unmet

demand in the market today."
In terms of the job outlook,
demand is up in segments
such as import/export, telecom, travel & hospitality and BFSI, which continue to grov on the back of growing digital-

isation efforts.
Job postings in import/export segment witnessed a rise by 47%, the highest ever increase recorded over the past year. Furthermore, in line with the new wave of digi-

and digital money, job postings in BFSI up at 38% stayed steady, followed closely by Telecom/ISP, which was up 36% and is expected to wit-ness further job amplification on the back of the anticipated 5G rollout in India

5G rollout in India. Travel and tourism saw hir 5G rollout in India. Travel and tourism saw hiring rise by 29%, exhibiting a full recovery beating declines seen over the last four quarters. On a month-on-month basis the growth in hiring in this segment has almost doubled. With offices ramping up to return to work full-time and the economy falling back to pre-Covid norms, sectors such as office equipment/automation has seen a rise of 101%, and real estate is up 25%. Retail at 11% growth in May. However, the second of the with moderate growth in May. How the second in the second of the with moderate growth in May. A second of the with moderate growth in May. How the second of the with moderate growth in May. How the second of the with moderate growth in May. How the second of the with moderate growth in May. How the second of the work of the work

cement, construction, iron/steel, which fell by 9%. Shipping/marine sector also witnessed a decline of 4%—a first annual dip from a year ago level.

Deepak Nitrite plant gets closure notice

NAYAN DAVE Ahmedabad, June 7

THE GUJARAT GOVERN-MENT has issued a closure notice to chemical intermedi-ate maker Deepak Nitrite (DNL) in connection with an incident of fire and series of explosions at the company's plant situated at Nandesari industrial estate nearVadodara

industrial estate near Vadodra recently.

As per the notice issued by the office of Director of Industrial Safety & Health (DISH), functioning under the Gujarat government's Labour & Employment department, DNL will not be permitted to start production activities till it follows compliances related to plant and building safety.

"DNL management will have to submit certificates related to structural stability of buildings aft the plant post free incident apart from other safety aspects. The company would require an audit from competent persons. Once the company submits necessary documents related to safety, a team of experts from DISH authority will conduct a plant inspection and if the

team feels the plant is safe for the workers, the closure notice will be withdrawn," said SC Bamania, joint direc-tor, Industrial Safety & Health.

Last Thursday, a fire broke out at DNL's Nandesari plant with series of explosions. Due to the incident, seven workers were injured and nearly 700 were injured and nearly 700 people staying in the vicinity of the plant were shifted to safer places. As many as 10 fire tenders required to douse the blaze.

Meanwhile, in its official statement, DNL said that the incident occurred at its warehouse in the Nandesari facility. The commany's emergency.

house in the Nandesari facility. The company's emergency response team, in partnership with the support of local authorities, brought the fire under control within a couple of hours of the incident.

"All the properties at the plant are covered in our insurance. The cause of fire is being investigated and the company is committed to extend assistance to all the relevant

tance to all the relevant authorities investigating this matter. We expect operations at the Nandesari facility to resume shortly."

Ola in talks for \$1-billion cell manufacturing facility in India

■ Ola plans to invest in companies with advanced cell & battery technology, alongside the 50 Gwh battery plant

■ The plant may be

built with an initial capacity of 1 Gwh, which will be expanded in the future

■ Ola needs 40 Gwh of battery capacity to power 10 million electric scooters

PRESS TRUST OF INDIA

SOFTBANK GROUP-BACKED OLA Electric is in talks with multiple global suppliers to build a batterycell manufacturing plant

in India with a capacity of up to 50-gigawatt hours, sources said. As part of its broader electri-fication push, the firm plans to invest in companies with advanced cell and battery tech-nology, alongside the 50 Gwh battery plant. Ola Electric needs 40 Gwh of

Ola Electric needs 40 Gwh of batterycapacity power 10 mil-lion electric scooters annually. The remainder will be for its elec-tric cars, which the company plans to manufacture in the future. Sources said the cell bat-tery plant may cost around \$1 billion (over \$7,00 crore) and may be built with an initial capacity of 1 Gwh, which will be expanded in the future. Over 40 eloha sunnifiers are

Over 40 global suppliers are

Surfshark follows ExpressVPN to shut down servers in India

AFTER EXPRESSYPN, ANOTHER virtual private net-work (VPN) service provider Surfshark has decided to shut down its servers in India in the wake of new CERT-In directive wake of new Lekt-Indirective, which mandates storage of user data for five years. Surf-shark said though its physical servers will be shut down before the new regulations come into effect, Indian users will continue to access services will continue to access services. through their virtual Indian servers - which will be physi-

servers – which will be physically located in Singapore and London.

The new directions will come into effect from June 27.

"A VPN is an online privacy tool, and Surfshark was founded to make it as easy to use for the common users as possible. The infrastructure that Surfshark runs on has

TVS

been configured in a way that respects the privacy of our users, and we will not compro-mise our values – or our tech-nical base," said Gytis Malin-

nical base," said Gytis Malin-auskas, head of Legal at Surfshark.

Meanwhile, the govern-ment reiterated on Tuesday that anybody providing ser-vices in the country has to obey the rules. It is, however, not clearhow the government will enforce the rules when the companies are not physically present in India.

"There are some companies."

present in India.

"There are some companies who believe anonymity is their express marketing USP. Unfortunately for us, anonymity is not a safe harbour for criminality. Lot of companies have

built their business model around anonymity. For us pro-duction of evidence during the commitment of a crime or investigation of a crime is an absolutely unambiguous absolutely unambiguous obligation of every intermediary," minister of state for elec-tronics and IT Rajeev Chan-

tronics and IT Rajeev Chandrasekhar said.
He said the government is not asking for data from these companies. "Wedon't want any data but when there is an illegality committed, you should definitely be in a position to produce data about who committed that illegality. This is what we are asking for We are what we are asking for. We are going to have zero tolerance on anonymity being a cover for crime online," he asserted.

ANUH PHARMA LIMITED

te Company has uploaded full details of such shareholde spanse Account on its website at www.anuhpharma.com. ethink http://www.anuhpharma.com/ to verify the details o bile to be transferred to IEPF Suspense Account.

Bharat Gangani Company Secretary & Compliance Officer

CNG products help Ashok Leyland reach 30.6% share

in M&HCV



SAJAN C KUMAR

HINDUJA FLAGSHIP COM-MERCIAL vehicle major Ashok Leyland (ALLI)'s market share in domestic M&HCV segment has grown sequentially to 30.6% in Q4 FY22 from 25.3% in Q3, thanks to the slew of CNG product launches that kicked off good interest from the customers in the

quarter. The M&HCVtruckvolumes The M&HCVtruckvolumes have grown almost 50% higher than the industry growth, resulting in the company's market share reaching 30.6% in Q4 FY22, as compared to 28.9% in Q4 FY21, Dheeraj Hinduja, executive chairman, Ashok Leyland (ALL), recently told an analysts earnings call. earnings call.

earnings call.

The company's market share has been 30% plus level during the last four-five years, barring the last two years, which witnessed a reduction owing to the outbreak of Covid pandemic. ALL officials said pandemic. ALL officials said that ideally 30% plus is the norm where the company should be and what has helped

snould be and what has neiped to regain the market share is the addition of CNG products. ICICI Securities in a research note said that ALL is well placed to benefit from the CV cycle recovery theme.

financialen epan.in

cer sain: Ola Electric, theysaid, has initiated talls with global suppliers from Germany, Korea, Japan and other hubs to fuel its battery manufacturing ambitions. R currently imports its battery cells from South Korea. Companies like Durr and Stemens also seem to be on the list of suppliers. The battery cell manufacturing sector is dominated by the likes of CATI, LG, Energy Solutions, and Panasonic, which supply to automakers such as Tesla and Volkswagen. Industry experts believe that one of the world's youngest EV companies is keen to begin cell manufacturing by next year. TVS Electronics Limited

E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 2th Annual General Neehing (ASM) of the members of the C Nednesday, 28th June, 2022 at 19.00 am, (BST) through Video Conferencing (VC). Other Autol propliance with aglication provisions of the Companies Act, 2013 and Rules from thereundations and Disclosure Regularentisty, Regulations, 2015, in line with the General Circuits.

congliance with splitching provisions of the Companies Act, 2013 and Rules Tamed Personal Manual (2014). In Congliance with splitching provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed Personal Manual (2014). All Manual (2014) and Congliance with splitching provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed Personal Rules (2014). All Manual (2014) and 2022 dated the April 2020, 15th April 2020, 5th May 2021, 15th December 2021, 14th December 2021, 14th

tembers holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date Wednesday, 22" June, 202 nay cast their vote electronically on each laters of the business as as forth in the Notice of the ASM through the electronical gasterion ship. Members may note the following information:

Cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through e-voting system during the AGM Sunday, 26" June, 2022 at 10.00 a.m. (IS

The remote e-voting shall commence on Sunday, 26" June, 2022 at 10,00 a.m. (IST)
The remote e-voting shall end on Tuesday, 28" June, 2022 at 500 pm. (IST)
He remote e-voting models shall be disabled by NSDL after the solve mentioned date and time and cross the vote solution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The members who have cast de by member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The members who have cast de by member the time of the country of the country

ierson, who acquires shares of the Company after dispatch of the Notice of AGM and Annual Report and holds shares as It-off data is a 22" June 2022, may obtain the User ID and password for e-voting by sending an e-mail, initiating DP ID interest ID Fold No. In Corporant (interplatations) of sortange interested inchia in or Member may send an e-mail request othorigized co. in. However, if the member is already registered with NSDL for e-voting them the existing user ID and word carbon late lost of cortaining the votic.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on out-off date only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM. The Company has appointed Mr K Sriram, Practising Company Secretary as the scrutinizer for conducting the remot e-voting and also e-voting process during the AGM in a fair and transparent manner.

in case of any queries, the member may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user and the Members available at the downloads section of www.evding.mail.com or call on toll fine no: 1800/1020990 and 1800/22440. You may also send quiere / grevenous refelling to remote e-voting to Ms. Pallaw Mhatre Manager at

he Company had also published a communication on 3" June 2022 to facilitate updation of e-mail IC ot already registered the same. Please keep your updated email ID registered with the Con

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL CHANDIGARH FORM NO. CAA. 2 [Pursuant to Section 230 to 232 of Companies Act, 2013] Company Application No. CA(CAA) No. 44/CHD/PB/2021

Company Application No. CA(CAA) No. 44/CHD/PB/2021
IN THE MATTER OF:
TRIPUTI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
(Transferor Company)
AND
MILKPOOL BMITED
(Transferee Company)
AND
Their respective Shareholders and Creditors
Advertisement of notice of the meetings of Milkfood Limited

Notice is hereby given that by an order dated 13.05.2022, the Hon'ble Tribunal has directed a meetings to be held of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Transferee Company for the purpose of considering, and if thought fit, approving, with or without modification(s), the proposed Scheme of Amalgamation between the Transferor Company and Transferee Company and their respective Shareholders and Creditors.

In pursuance of the said order and as directed therein further notice is hereby given that the meetings of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Transferec Company will be held virtually through video conferencing mode and the facility of attending and voting through video conferencing from Central Depository Services (India) Limited (CDSL) Platform so as to enable the stakeholders, to consider and approve the Scheme by way of aforesaid resolution. Accordingly, voting by Secured Creditors, Unsecured Creditors and Equity Shareholders of the Transferec Company to the Scheme shall be carried out through video conferencing to be held on Saturday, July 9, 2022, at 10.30 AM, 11:30 AM and 02.30 PM respectively.

video conferencing to be held on Saturday, July 9, 2022, at 10.30 AM, 11:30 AM and 02.30 PM respectively. Copies of the Scheme of Amalgamation and of the Explanatory Statement, under Sections 230 can be obtained free of charge at the registered office of the Transferee Company or may obtain from official representative, Mr. Rakesh Thakur, Company Secretary, Tel No. 94)–011–26460670 Of Transferee Company or by emailing at info@milkfoodltd.com of Transferee Company. The Company is also providing postal ballot evoting facility to enable the shareholders of Transferee Company to vote on the resolution proposed in the aforesaid notice of the Tribunal Convened meeting of the equity shareholders. The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for the purpose of providing evoting facility to all its shareholders. The e-voting facility can be availed by logging on www.evotingindia.com for e-voting. Voting through postal ballot e-voting in connection with the resolution proposed in the Notice, will commence on and from 9.00 a.m. on Wednesday, July 06, 2022 at 09.00 am. and will end at 5.00 p.m. on Friday, July 08, 2022.

from 9.00 a.m. on Wednesday, July 06, 2022 at 09.00 am. and will end at 5.00 p.m. on Friday, July 08, 2022. The authorized representative of a body corporate which is an stakeholder of the Transferee Company, may attend and vote at the meeting provided a copy of the resolution of the Board of Directors or other governing body of the body corporate or a power of attorney or an authorization letter authorizing such representative to attend and vote at the respective meetings of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Transferee Company as the case may be, is duly e-mailed at info@milkfoodld.com or physically deposited or sent by courier at the registered office of the Transferee Company not later than 48 (forty eight) hours before the scheduled time of the commencement of the each respective enetings of the Stakeholders of the Transferee Company, i.e. by July 7, 2022 on or before 10.30 AM for Secured Creditors and 02.30 PM IST for Equity Shareholders. A person/ entity who/which is not an unsecured creditor on such date should treat the notice for information purposes only and shall not be entitled to avail the facility of voting at the meeting.

The Company is providing a facility for voting by way of E-voting to the Stakeholders attending the meetings through video conferencing who can vote by E-voting through an e-mail info@milkfoodltd.com either ir pdf/jpg/scanned image format or all such ballot poling papers may be sent to Registered office of the Transferee Company at 5th Floor, 91, Bhandari House, Nehru Place, New Delhi -110019 after calling out of the resolution in the meeting scheduled for this purpose.

The Hon'ble Tribunal has appointed the undersigned as the Chairman, Mr. Manuj Nagrath, Advocate as Alternate Chairman and Mr. P.D. Sharma, Practicing Company Secretary as Scrutinizer of the said meetings. The Scheme of Amalgamation, if approved in the aforesaid meetings, will be subject to the subsequent approval of the Hon ble Tribunal.

Dated this 7th day of June 2022

Justice Ranjit Singh [Retd.] (Chairman appointed for the meetings)

New Delhi

भारत होटल्स लिमिटेड नीर्सा (Joekt Teiring) सीआईएन: U74899DL1981PLC011274 पंजीकृत कार्यालय बारावमा लेन, नई दिल्ली–110 001 कुरमार: 91–11-4447777 / 4444 7886, corporate@thelalit.com, वेबसाइट www.thelalit.c

अंशवारकों हेतु सूचना-पोस्टल बैलेट एवं ई-मतदान के संबंध में

या किया तथा है के मांची (क्लाम एं प्राामक) विकास है किया है किया है । एंग्ले अधिनेत्वर 2014 की साम का पूर्ण 10 मांचा अधिनाम के प्रमुख्य के में हैं , से अनुसार आसीन माना पूर्णा टिम्मीक 30 मी 2024 में निर्माणित्रमुख्य कोई से, से अनुसार आसीन माना पूर्णा टिम्मीक 30 मी 2024 में निर्माणित्रमुख्य कोई से से अनुसार आधीन माना प्रमुख्य माना प्रमुख्य की परिता किया प्राप्त प्रमुख्य की से से अध्याप प्राप्ति माना अपने प्रमुख्य की माना प्रमुख्य की से अध्याप की से माना प्रमुख्य की से अध्याप की से माना प्रमुख्य किया की माना प्रमुख्य की स्थाप मी प्रमुख्य की प्रमुख्य की मी अध्याप की प्रमुख्य की भी अध्याप की प्रमुख्य की माना प्रमुख्य की भी अध्याप की प्रमुख्य की भी अध्याप की प्रमुख्य की भी अध्याप की प्रमुख्य की प्रमुख्य की प्रमुख्य की भी अध्याप की प्रमुख्य की प्रमुख्य की प्रमुख्य की भी अध्याप की प्रमुख्य की प्रमुख्य की प्रमुख्य की प्रमुख्य की भी अध्याप की प्रमुख्य क

मेण शिक्ष पर विश्वक करने अस्पात्ती कर मैं अपने देशेश रहे यह रहा करें his Affacch conscioushier wick महिला करने में स्थान करने में महिला करने के स्थान करने की सुत्ती महिला करने की सुत्ती महिला करने की सुत्ती महिला है कि स्थान करने की स्थान की स्थ

हैं।
बर्ग के अपूर्णन किया जाता है कि सुरुवा में निर्धारित समस्त दिग्योगांते तथा दूरण ई-क
से आपना से में माराना करने भी अधिकें को धानमुद्देश पढ़ में ।
से मित्र में में माराना करने भी अधिकें को धानमुद्देश पढ़ में ।
से मित्र में में में माराना करने में की पित्र के धानमूर्ण में प्रदेश करने में माराना में माराना करने के किए पह आधावती तथा मुख्ये पूर्ण पढ़े, पेरेक्ट अपनी सीव्य अपनी माराना में माराना करने के किए एक आधावती तथा मुख्ये पूर्ण पढ़े, पेरेक्ट अपनी सीव्य अपनी माराना में माराना में माराना मारा

प्रपत्रं जी' अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

कापरिट देनदार के निगमन का तथ्य प्राप्तिकरण जिसके अधीन कार्यरिट देनद निगमित / फेरीकृत है न्यार्थेट देनदार बीर कार्यरेट प्रकान

रांड्या / शीमित द्यांबेल पहचान शस्त्र कार्योरेट देनदार के पंतीकृत कार्यालय

तरा शक्त के अधीन लागू अग्राद्यता के मानवंत श्रवि की अधिकवित की प्राप्ति हेतु ओरोम ति |दित समाधान आवेदको की अनतिम सची

तमाचित समाचान आववका का अनाराम सूचा जारी करने की तिथि अतिम सूची के बारे में आपत्तायां प्रस्तुत करने

डेतु आगन (की) 3 त्याचीन सम्बद्धान आवेदकों की अधिन पूर्ण जानी करने की डिमेश व त्याचीन सम्बद्धान आवेदकों की अधिन पूर्ण त्याचीन सम्बद्धान आवेदकों को पूछना इत्यान, गुरुवाक में हैं इस तथा सम्बद्धान पीएना देतु अनुनोध आवे करने की डिमेश व तथानी सम्बद्धान स्वतान में हिन्दार, गुरुवान आन्तान तथा अधिनेत्य गुरुवान में हु उत्तर, गुरुवान आन्तान तथा अधिनेत्य गुरुवान में हु अनुनीध आवा करने की निविष्ट

निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान

रेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण मॉडर्न सिटेक्स (इंडिया) लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ए-४, विजय पर्व, तिलक नग जमपुर – 302004 (वाजस्थान) साइट का पताः पेट्रोफिल्स डिवीजन, दमनगाम, तालुकाः कर्जन, जिला ब्लीदा (गुजरात) 28 मार्च, 2022

क पुना 2022 है-स्व नाईटी cip makiggmail com पर विशिष्ट है-सव नाईटी के नाईट के माजबंध से तमाजित समाजान आदेखा हुए हो-सव के माजबंध से तमाजित समाजान और का हुए हो-साईच्छि हुमाती com पर विशिष्ट अमुदेश कर के है-जेन के समाज्या से तमाजित समाजान आदेखा सहार विश्वस्थ कार्या जा सकता है । 20 जुना 2022

नपुर्वाध बहुमार है-मेल के माजन से समितिय संस्थापन कारक बुना विकास भाग जा सरकार है। 2 अगरन 2022 प्रमाणन प्रांतन के क्षार्य के विभिन्न हस्ताकर किए जाएने और विकास मोजन कर किए विभिन्न हस्ताकर कर में या की विकास कर के वा कारक / मूर्टिय हात कर कारक है। विकास कर के वा कारक / मूर्टिय हात कर स्वाध है में विकासित कार के वा कारक / मूर्टिय हात कर स्वाध है में विकासित कार के वा कारक / मूर्टिय हात कर स्वाध है में विकासित कार्यों के कार्यों है का कर की cip_mall@gmail.com हर्साय कार्यों है है

DS जुलाई 2022

ब जुलाई २०२२

नवंबर १९७६ स्ट्रार ऑफ कंपनील-लयपुः 243020 H97601 C001780

्राप्ता एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड **प्रा**

ग) अवास्त्रार्थ / सह- ज्ञास्त्रार्थ / गांस्टर का नाग एवं पड़ा, १) ऋग स्थात शंक्य, ३) ऋग रहिंद, ४) आँग्रुटी के विस्तरण, ६) कंग सूचना की तिथि, ६) अन्यर्थित चाँच आईएनआर में, १) आधिपत्य की तिथि

शुद्धिपत्र <u>प्रपत्र ए</u> सार्वजनिक घोषणा

	मैसर्स जीआरजे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अचल संपत्ति परियोजना 'एवलोन रीगल कोर्ट' के लेनदारों के ध्यानार्थ						
शंबंधित विवरण							
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स जीआरजे डिस्ट्रीब्युटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमि					
2	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	23 नवंबर 1998					
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-(दिल्ली) कंपनी अधिनियम 1856 / 2013 के अंतर्गत					
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U51396DL1998PTC097177					
ut.	कार्योरेट देनदार के पंजीकृत कार्यात्रय तथा प्रधान कार्यात्मय (मदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालयः ६४, सिंधिया हाउस, कर्नाट प्लेश, नई दिल्ली–110001					
6.	कापीरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरमन तिथि	03.06.2022, माननीय एनसीएलटी द्वारा पारिस आहे की तिथि (06.06.2022 को आईआरपी द्वारा प्राप्त आहे					
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के सभापन की पूर्वानुमानित तिथि	30 नवंबर 2022					
8	अतरिय समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल	मीरव कटियार पंजी मं: IRRUIPA-001/IP-P00209/2017-18/104					

n.जीर | ठी... 32, ईस्ट ऑफ कंलाश, नई दिल्ली – 110065 ई मेल : cagauravkatiyar@gmail.com हमेल : cagauravkatiyar@gmail.com थी-32 इंग्ट ऑफ केवारा गई दिल्ली — 110065 ईमेल : grj.cirp@gmail.com वेबसाइट : www.gauravkatiyar.in दावा प्रस्तुत करने हेतु अतिमतिथि 20 जून, 2022 जवल संपत्ति परियोजना के तहत आबंटी "एवलोन रीयल कोर्ट"

. श्री श्याम अशे हा पंजी. सं: IBBHPA

पताः १६, अवस्ति आवश्यः अस्तरकारम् नहिय्स्ति। श्री वक्ष्ण गीयवः वर्षीः सः । १९४१ मध्यः पताः १७६०, इटानिया टॉयर, महापुन गोडेरेन, रीक ७३, नोएवा, उत्तर वर्षेण —201301 श्री वीषक पुताः पताः मंत्रीः सः । १९४१ मध्यः

(विकास के प्राप्त के

इंडियन बैंबा 🦚 Indian Bank

नक कार्यालय, गोएडा: डी-211/2, सेक्टर-61, गोएडा-20130, फोन: 0120-266 फैक्स: 0120-2683692, शाखा: सेक्टर-18, गोएडा वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अविनियम 2002 की बारा 13 (2) के तहत सूचना

हत्याच्या अध्यक्षक अध्यक्षक हैं पहुंचित्रां का प्रतिकृति होता प्रतीन अधितार के 12 () के तार पूर्वमा हिरान के की संबंधित शास्त्र मित्ती आस्त्रियों का प्रतिकृतिकरण और पुनर्निमांच एवंच प्रतिकृति होता के स्वार्थित 2002 की धार 152) के तार त्यूचन, हिरान के की संबंधित शास्त्र मित्तिक्वित प्रतिकृति के स्वार्थित अपने की स्वर्धीत होता के अपने की स्वर्धीत में पूछ हूं। कि मित्तिक्वित प्रतिक्वेत स्वर्धा को अधिनेया के तार कि समित्रिक्वेत सार्थित को मीटिस कार्य कर आधीर्थित की स्वर्धा के अधीर्थित के अधीर्थित के स्वर्ध के स्वर्ध हो अपने अधीर्थित के स्वर्ध हो अपने स्वर्ध हो अपने स्वर्ध हो अपने स्वर्ध हो के स्वर्ध हो अपने स्वर्ध हो अपने स्वर्ध हो की स्वर्ध हो अपने स्वर्ध हो अपने स्वर्ध हो अपने स्वर्ध हो अपने स्वर्ध हो की स्वर्ध हो की स्वर्ध हो की स्वर्ध हो अपने स्वर्ध हो अपने स्वर्ध हो की स्वर्ध हो की स्वर्ध हो की स्वर्ध हो की स्वर्ध हो हो की स्वर्ध हो हो स्वर्ध हो स्

e t	उद्यासकर्ताओं और गाएंटरों के नाम	गिरवी रखी गई संपत्ति का विकरण	मांग मोटिस की विवि वकाया चरि
1.	हुन्सा कर्मा के क्षेत्र अध्यास पूत्र भी रोगा यह समायत सम्मा नवर से, पुनरात प्रितः स्त्री अपने स्त्री स्त्र	अर्थेक ए. संकटन-100. मेर्स्स्यातिका-नीतम्बद्धा स्थान विकार आसाविका परितार निर्माण सम्बाद्धा स्थान सभी भाग और अंत रामा इसका माथ क्षेत्र 250.00 को स्थान हैं है. स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान भीका कित्रमुख्या : प्रस्त परित ए00. स्थिता १३ सीटर मेरी सड़क, पूर्व परित ए-80. प्रतिमा प्लॉट ए-80	23.55.2022 के अनुसार 70.23.65.2022 के अनुसार 70.42.79.339 / -(प्यातीस साख रूप्या सीन सी प्रणाशीस साख रूप्या सीन सी प्रणाशीस रूपारीए की तिथि: 29.10.2018
ě	कः 00.00.2022, स्थान : नोएका		प्राविकृत व्यविकारी, इकियन कै

BEFORE THE HON BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CHANDIGARH FORM NO. CAA. 2 irsuant to Section 230 to 232 of Companies Act, 2013] impany Application No. CA(CAA) No. 44/CHD/PB/2021

Company Application No. CALAN NO. 447 (2017/E)/2021
IN THE MATTER OF:
TRIPUTI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
(Transferor Company)
AND
MILKFOOD LIMITED
(Transferee Company)
AND
Their respective Shareholders and Creditors
Advertisement of notice of the meetings of Milkfood Limited

Notice is hereby given that by an order dated 13.05.2022, the Hon'ble Tribunal has directed a meetings to be held of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Transferee Company for the purpose of considering, and if thought fit, approving, with or without modification(s), the proposed Scheme of Amalgamation between the Transferor Company and Transferee Company and their respective Shareholders and Creditors.

In pursuance of the said order and as directed therein further notice is hereby given that the meetings of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Transferee Company will be hele virtually through video conferencing mode and the facility of attending and voting through video conferencing from Central Depository Services (India) Limited (CDSL) Platform so as to enable the stakeholders, to conside and approve the Scheme by way of aforesaid resolution. Accordingly, voting by Secured Creditors, Unsecure Creditors and Equity Shareholders of the Transferee Company to the Scheme shall be carried out through video conferencing to be held on Saturday, July 9, 2022, at 10.30 AM, 11:30 AM and 02.30 PM respectively.

rideo conferencing to be held on Saturday, July 9, 2022, at 10, 30 AM, 11:30 AM and 02.30 PM respectively. Depice of the Scheme of Annagamation and of the Explanatory Statement, under Sections 230 can be obtained free of charge at the registered office of the Transferee Company or may obtain from official or by emailing at infoamile food the control of the Transferee Company or may obtain from official or by emailing at infoamile food little of the Transferee Company. The Company is also providing postal ballot evoting facility to enable the shareholders of Transferee Company to two on the resolution proposed in the aforesaid notice of the Tribunal Convened meeting of the equity shareholders. The Company has the state of the Central Depository Services [India] Limited (CDSLT) for the purpose of providing evoting facility tall its shareholders. The evoting facility can be availed by logging on www.evotingindia.com for e-voting. Voting through postal ballot e-voting in connection with the resolution proposed in the Notice, will commence on an from 9.00 a.m. on Wednesday, July 06, 2022 at 09.00 am. and will end at 5.00 p.m. on Friday, July 08, 2022.

The authorized representative of a body corporate which is an stakeholder of the Transferree Company, may attend and vote at the meeting provided a copy of the resolution of the Board of Directors or other governing body of the body corporate or a power of attorney or an authorization letter authorizing such representative to attend and vote at the respective meetings of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Transferree Company as the case may be, is duly e-mailed at info@millifoodltd.com or physically deposited or sent by courier at the registered office of the Transferree Company not later than 48 (forty eight) hours before the scheduled time of the commencement of the each respective meetings of the Stakeholders of the Transferree Company, i.e. by July 7, 2022 on or before 10.30 AM for Secured Creditors, 11.30 AM for Unsecured Creditors and 02.30 PM IST for Equity Shareholders. A person/entity who/which is not an unsecured creditor on such date should treat the notice for information purposes only and shall not be entitled to avail the facility of voting at the meeting.

The Company is providing a facility for voting by way of E-voting to the Stakeholders attending the meeting through video conferencing who can vote by E-voting through an e-mail info@milkfoodlid.com either is pdf/jgg/scanned image format or all such ballot polling papers may be sent to Registered office of transferee Company at 5th Floor, 91, Bhandari House, Nehru Place, New Delhi-110019 after calling out of the resolution in the meeting scheduled for this purpose.

The Hon'ble Tribunal has appointed the undersigned as the Chairman, Mr. Manuj Nagrath, Advocat Alternate Chairman and Mr. P.D. Sharma, Practicing Company Secretary as Scrutinizer of the said meeti. The Scheme of Amalgamation, if a pproved in the aforesaid meetings, will be subject to the subsequapproval of the Hon ble Tribunal.

Dated this 7th day of June 2022

Justice Ranjit Singh [Retd.] (Chairman appointed for the meetings)

भी त्रांचार कारण कर अपूर्ण के प्राण्य के प्राण के प्राण्य के प्राण्य के प्राण्य के प्राण्य के प्राण्य के प्राण के प्राण्य के प्राण्य के प्राण्य के प्राण्य के प्राण्य के प्राण के प्राण्य के प्राण्य के प्राण्य के प्राण्य के प्राण्य के प्राण के प्राण्य के प्राण्य के प्राण्य के प्राण्य के प्राण्य के प्राण के प्राण्य के प्राण्य के प्राण्य के प्राण्य के प्राण्य के प्राण के प्राण्य के प्राण्य के प्राण्य के प्राण्य के प्राण्य के प्र ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड अवधि के लिए सुद्ध लाभ (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए सुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं/अववा असाधारण मदों से कर से बाद अवधि के लिए सुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं अववा असाधारण मदों के 14.14 बाद) 11 04 53.57 66.20 171.35 ... अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल 14.14 11.96 53.57 66.20 171.35

5572.06

5197.06 5577.04 5107 NG

0.003 0.002 0.010 0.012

	2. तरल	0.003	0.002	0.010	0.012	0.033
	31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के	लिए अंकेक्षिर	र वित्तीव परिष	ामी विवरणी		रु. लाखों में
क्रम	विवरण		समापा तिमाही		समाप्त	वित वर्ष
柱.		31.3.2022 (अंकेक्षित)	31.12.2021 (अनंकेक्षित)	31.3.2021 (अंकेक्षित)	31.3.2022 (अंकेक्षित)	31.3.2021 (अंफेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	4126.77	2542.26	5532.53	7,453.53	15,181.95
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	21.74	31.42	98.56	99.37	217.76
3.	कर से पूर्व अर्थाय के लिए शुद्ध लाभ (विकिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के याद)	21.74	31.42	98.56	99.37	217.76
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं अववा असाधारण मदों के बाद)	21.74	31.42	98.56	76.83	173.62
5.	अवधि हेतु कुल ट्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ एवं अन्य ट्यापक आय (कर के बाद) से जामिल	21.74	31.42	98.56	76.97	173.77
6.	इक्किटी शेवर पूंजी	5572.06	5197.06	5197.06	5572.06	5197.06
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेविशत तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	-	-	-	12640.28	12,016.32
8.	आय प्रति शेवर (रु. 1/- प्रति का) (वारी प्रचालनों के लिए) 1. मूल 2. वरल	0.0039	0.0060 0.0060	0.0190 0.0190	0.0138 0.0138	0.0334 0.0334

शरकरों अवेद पूँची अविधित (पूर्व चर्च के अवेदिकत तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मृत्यावन आर्यक्षती के अविदेशक आर्मिका)

ni) (क. 1/- पति का) (जारी पचालमों के लिए)

हिल्ला है। उसके तिर्वेश परिचारी को अंदिर करियों हुए वालीक एवं तिरातिक को रहे तथा 30 माँ, 2022 को असासन उनका 900 न 7 कारण है है।

एने प्रति के त्रितंत कर में में स्थाना करती है, इसा और का तिरात्त में अंतरित इसांक प्रत्य के त्रितंत के त्रितंत कर स्थान कर प्रति है।

उसके विकार के त्रितंत के त्रितंत कर स्थान कर स्थान है है इसा उसके आप उसके अप उसके प्रत्य के त्रितंत के त्रितंत कर स्थान कर है है इसा उसके त्रितंत के उसके प्रति कर स्थान है इसा उसके त्रितंत के उसके प्रति कर स्थान कर है इसा उसके त्रितंत कर स्थान कर स्थान कर है इसा उसके त्रितंत कर स्थान स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान स्

हस्ता./-मोहन जगदीश अगरवाल प्रवंध निदेशक DIN: 07627568

पंजाब नैशनल बैंक 💟 punjab national bank कब्जा सूचना (अमत/ चल सम्पत्ति के लिए) (नियम-8(1)) (प) मांग मीटिस की शिष (बी) सांक्षेतिक कब्बे की शिष (ए) शाखा का नाम/ (बी) खाता का नाम/ (सी) ऋणी का नाम व पता बंधक सम्पत्ति का विवरण (च) जाजा आवरेण मेरत बीट, मेरत. (ची) मैसर्स मेरी हरण्यानेम (ची) मैसर्स मेरी हरण्यानेम, ए.च. जानिया नेतीहर्स, क्लीकुल्यूए रोड, हमूड वर्षाच्या रोड, मेरड, उद्यक 25002, सी हरणा नेती (च्यां /ब्यंच्यां) पूर्व से अन्युद्धिन, ए.च. जानिया नेतीहर्स, अनुक्युप्त रोड, स्मानु प्रांचाना रोड, संहत, 5500-55000 क्लेकुबबुद्ध गीर, लाइ ब्लेक्स गीर, सेंगर, 2000-25000.0 पा.3, जान तर्वत की 9-27, विका 12 मीर की हारावत । (श्री आरात आहुनेत कर केंद्र में रहत हैं कि प्रक्रिक वैक्यूबर को क्लूकिबना (क्षी) साठके प्रेच्या के पान क्लाकिबना (क्षा) एक 107, वर्ष भारत, सुद्ध तेर, सेंगर 25000.0 पीरिट-एस का गाम कार्या तर्वीव्य वापन, सेंगर, त्या केक्स केंद्र के कार्या में कार्या मान कार्या तर्वीव्य वापन, सेंगर, त्या केक्स केंद्र कार्या, सेंगर, व्याव केंद्र के कार्या, स्वाव केंद्र में कार्या मान कार्या केंद्र मान कार्या कार्या मान क्षित हैं कि प्रक्रिय हैं कि कार्या मान क्षेत्र मान क्षा केंद्र मान क्षा केंद्र मान कार्या केंद्र मान कार्या केंद्र मान कार्या कार्या मान क्षा केंद्र मान कार्या कार्या केंद्र मान कार्य केंद्र मान कार्य केंद्र मान कार्य केंद्र मान कार्या केंद्र मान कार्या केंद्र मान कार्य केंद (t) 14.03.2022 स्रोकी, सार्यों ने 11, के एस. स्थानी हैं है. सेंट. 3000-200002, वी इराज मैंसे (क्रायट, श्रेक्ककरों) कुर वी असूत स्थित, 185-63, अब्दूर नेट. सिवार अस्त्रेक सिवारी तेट. विशे ते प्रतिक सिवार अस्त्रेक स्थान सिवार अस्त्रेक सिवार के तेट. विशे ते प्रतिक सिवार के तेट. विशे ते प्रतिक सिवार के तेट. विशे तेट. 3. (१) शारावा मामाम, मेरा, (भी) में परिचेत कि दुव में इस्तर विश्व । (क) ये रागेल कि (स्वी) दुव भी इस्तर कि, यह । स्वार अंतर कि (क) मामाम, कि (स्वी) देश की है। स्वार कि (स्वी) दुव भी इस्तर कि, यह । स्वार को 130, पीताना स्वार्थ के है, यस । स्वार, जिला में इस्तर कुछार 25001, जब 2 स्वार को 130, पीताना स्वार्थ कि, यस्तर, क्वित्र में १९, १००० 25001, विश्व देशकों कुण्या कि (स्वार के (स् 50 30,29,427.50 50 32,98,712.23 ्णा नाम स्थान पारत 250002 (ण गायत स्थेत केट. सेटट. (से भी सामिर कर्ती पुत्र कार्योर आग्मद। (भी भी सामिर आग्री वा कार्यार (कारी, वाचकार्या), सामा 1011/1, कार्यो प्रेत सिन्द 250002, भी अंतुन बार्यार वा कार्या (कारी, वाचकार्य), सामा कार्या (कार्यार कार्यार (कारी, वाचकार्य), सामा कार्यार कार्यार (कार्यार कार्यार कार्या कार्यार कार्या कार् ₹0 **60,09,888.63** िक प्रशासन में तर कि प्रशासन प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक



अधिकतम-44.5

सूर्यास्त- 19:18

जनसत्ता, नई दिल्ली, 9 जून, 2022

हंसते-हंसते सामाजिक संदेश



जनहित में जारी

निर्देशक : जय बसंतु सिंह

कलाकार : नुसरत भरूचा, अनुद ढाका, विजय राज, टीनू

यह फिल्म कुछ कुछ अक्षय कमार की चार साल पहले आई

'आप' पर भगवान

का आशीर्वाद बना

हुआ है : केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि

आम आदमी पार्टी (आप) पर भगवान का

आशीर्वाद बना हुआ है। यही वजह है कि हमारे

2018 में नौकरशाह पर कथित हमले से

संबंधित एक मामले में केजरीवाल और

सिसोतिया को आरोप मुक्त किए जाने के

खिलाफ पर्व मख्य सचिव अंश प्रकाश की

याचिका को खाँरेज करने वाली दिल्ली की एक

अदालत की रिपोर्ट को ट्विटर पर टैग करते हुए,

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान उनके साथ है।

उन्होंने कहा कि ईश्वर हमारे साथ है। भगवान

का आशीर्वाद हम पर है। हमारे खिलाफ सभी

कोरोना के 564 नए

मामले. एक की मौत

राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना के

564 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं, संक्रमण के

चलते एक मरीज की मौत हो गई। संक्रमण दर

2.84 फीसद दर्ज की गई। मंगलवार को कोरोना

रही और एक मरीज की जान चली गई थी।

षड्यंत्र नाकाम हो जाते हैं।

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 8 जून।

खिलाफ सभी साजिशें विफल हो जाती हैं।

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 8 जून।

'पैडमैन' की तरह है जो सामाजिक संदेश देती है। 'पैडमैन' में सैनिटरी नेपिकन के इस्तेमाल का संदेश था। इसमें नुसरत भरूचा ने निरोध के इस्तेमाल का संदेश दिया है। मध्य प्रदेश के छोटे से इलाके ओरछा की पृष्ठभूमि में बनी 'जनहित में जारी' कॉमेडी है और दर्शक को शुरू से आखिर तक हंसते रहने के कई मौके देती है। साथ साथ ये संदेश भी कि महिलाओं के स्वास्थ्य की समृचित सुरक्षा के लिए जरूरी है कि यौन संबंधों के दौरान कंडोम का इस्तेमाल हो।

वई दिल्ली (

नुसरत ने मनोकामना नाम की

एक महिला का किरदार निभाया है जो अपने परिवार की जरूरत के लिए एक ऐसी कंपनी में नौकरी करती है, जो कंडोम बनाती है। लेकिन इस बात को न उसका मायका जल्द स्वीकार करता है और न ससुराल। खासकर उसका ससर तो ये सब जानते ही आसमान सिर पर उठा लेता है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसको अपने पति रंजन (अनुद ढाका) से तलाक लेना पड़े। कई तरह के झमेले खडे होते हैं। परिवार में तकरार पैदा होती है। ससुर की भूमिका में विजय राज ने एक ऐसे परिवार के मखिया का किरदार

निभाया है जो अपने फैसले इस आधार पर लेता है कि पंचायत के चुनाव में वो जीतेगा या हारेगा। पूरी फिल्म विजय राज और नुसरत पर टिकी है। पति के रूप में अनद ढाका कई जगहों पर दबे दबे से हैं। हां, ददिया ससुर के रूप में टीनू आनंद अपने चुटीले संवाद से हंसाते रहते हैं।

फिल्म के कुछ गाने लोकप्रिय होंगे। खासकर 'उड़ता गुलाल इश्क वाला' जिसे अमित गुप्ता ने गाया है। फिल्म कुछ और चुस्त होती तो बेहतर हो जाती। कुछ हिस्से हटाए जा सकते थे। फिल्म युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 8 जून।

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हमले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका बुधवार को खारिज कर दी। प्रकाश ने 2018 में खुद पर हुए कथित हमले के मामले में यह याचिका दाखिल की थी। विशेष न्यायाधीश गीतांजिल गोयल ने मिजस्ट्रेट अदालत के निष्कर्षों को बरकरार रखा, जिनके आधार पर इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य विधायकों को आरोप मुक्त किया गया था।

प्रकाश ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि अदालत ने मामले में राजनेताओं को बरी करने के अपने फैसले में गलती की। यह आपराधिक मामला 19

फरवरी, 2018 को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर हुई बैठक के दौरान प्रकाश पर हुए कथित हमले से संबंधित है। निचली अदालत ने इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और 'आप' के अन्य विधायकों राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, अजय दत्त, संजीव झा, ऋतुराज गोविंद, आदेश गुप्ता, मदन लाल और दिनेश मोहनिया को आरोप मुक्त कर दिया था। हालांकि अदालत ने इस मामले में 'आप' विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

केजरीवाल, सिसोदिया और 'आप' के नौ अन्य विधायकों को अक्तूबर 2018 में जमानत दे दी गई थी। अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल को भी हाई कोर्ट से जमानत मिल चकी है। इस मामले के चलते दिल्ली सरकार और इसके नौकरशाहों के बीच कड़वाहट पैदा हो गई थी

जहांगीरपुरी में दो गुटों में पथराव, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 8 जून।

महेंद्रा पार्क थाने के जहांगीरपुरी इलाके में फिर मंगलवार देर रात एक बार दंगे की सुचना से पुलिस में हड़कंप मच गया।

पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि यह दो समुदायों में दंगा नहीं बल्कि एक गुट के के 450 मामले आए थे। संक्रमण दर 1.92 फीसद सदस्य को थप्पड़ मारने पर शुरू हुआ विवाद है।

आरोप है कि दंगे की अफवाह दूसरे गुट ने फैला दी। हालांकि मंगलवार देर रात दोनों गुटों में हुए विवाद में जमकर ईंट-पत्थर चले। इस दौरान गली में खड़े करीब एक दर्जन वाहनों के शीशे आदि टूट गए। महेंद्रा पार्क थाना पुलिस ने दंगे की धारा में मामला दर्ज कर तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही दो नाबालिगों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण चंडीगढ़ के समक्ष,

प्रपत्र सं. सीएए. 2

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अनुसार] कंपनी आवेदन संख्या सीए (सीएए) संख्या 44/सीएचडी/पीबी/2021

> निम्नलिखित के मामले में: तृप्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

(अन्तरक कंपनी)

तथा मिल्कफूड लिमिटेड

(अन्तरिती कंपनी)

उनके संबंधित शेयरधारक और लेनदार

मिल्कफूड लिमिटेड की बैठकों की सूचना का विज्ञापन

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि दिनांक 13.05.2022 के एक आदेश द्वारा, माननीय न्यायाधिकरण ने अन्तरक कंपनी और अंतरिती कंपनी तथा उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच समामेलन की प्रस्तावित योजना पर विचार करने और यदि उचित समझा, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अनुमोदन के उद्देश्य से अन्तरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों और अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है।

उक्त आदेश के अनुसरण में और उसमें दिए गए निर्देश के अनुसार एतद्वारा आगे नोटिस दिया जाता है कि अन्तरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों और अप्रतिभूत लेनदारों की बैठकें वस्तुतः सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) प्लेटफॉर्म से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की जाएंगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेने और मतदान करने की सुविधा प्रदान की जायेगी ताकि हितधारकों को पूर्वोक्त संकल्प के माध्यम से योजना पर विचार करने और अनुमोदन करने में सक्षम बनाया जा सके। तदनुसार, योजना के लिए प्रतिभूत लेनदारों, अप्रतिभूत लेनदारों और अन्तरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों द्वारा मतदान शनिवार, 9 जुलाई, 2022 को

क्रमशः 10.30 पूर्वाह्न, 11:30 पूर्वाह्न और 02.30 बजे अपराह्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। धारा 230 के तहत समामेलन की योजना और व्याख्यात्मक विवरण की प्रतियां अन्तरिती कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निः शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं या अन्तरिती कम्पनी के आधिकारिक प्रतिनिधि, श्री राकेश ठाकुर, कंपनी सचिव, दूरभाष संख्या +91-26460670 से या अन्तरिती कंपनी के पास info@milkfoodltd.com पर ईमेल करके से प्राप्त की जा सकती हैं। कंपनी अन्तरिती कंपनी के शेयरधारकों को इक्विटी शेयरधारकों की ट्रिब्यूनल द्वारा बुलाई गई बैठक के पूर्वोक्त नोटिस में प्रस्तावित प्रस्ताव पर मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए पोस्टल बैलेट ई-वोटिंग सुविधा भी प्रदान कर रही है। कंपनी ने अपने सभी शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') को नियुक्त किया है। ई-वोटिंग के लिए www.evotingindia.com पर लॉग इन करके ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नोटिस में प्रस्तावित प्रस्ताव के संबंध में पोस्टल बैलेट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान बुधवार, 06 जुलाई, 2022 को पूर्वाह

09.00 बजे से शुरू होगा और शुक्रवार, 08 जुलाई, 2022 को 5.00 बजे अपराह्न समाप्त होगा।। कॉरपेरिट निकाय का अधिकृत प्रतिनिधि, जो अन्तरिती कंपनी का हितधारक है, बैठक में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है, बशर्ते कि निदेशक मंडल या निकाय कॉपोरेंट के अन्य शासी निकाय या पावर ऑफ अटॉर्नी या प्राधिकरण के संकल्प की एक प्रति प्रस्तुत की गई हो। इस तरह के प्रतिनिधि को इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों और अन्तरिती कंपनी के अप्रतिभूत लेनदारों की संबंधित बैठकों में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाला पत्र, info@milkfoodltd.com पर विधिवत ई-मेल किया जाना है या भौतिक रूप से या कृरियर द्वारा अन्तरिती कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में अन्तरिती कंपनी के हितधारकों की प्रत्येक संबंधित बैठक के शुरू होने के निर्धारित समय से 48 (अड़तालीस) घंटे पहले, यानी 7 जुलाई, 2022 को 10.30 बजे से तक या उससे पहले पहले प्रतिभूत लेनदारों के लिए, 11.30 बजे पूर्वा. तक अप्रतिभूत लेनदारों के लिए और दोपहर 02.30 बजे अप. तक इक्विटी शेयरधारकों के लिए, भेजा जाना है। कोई व्यक्ति/संस्था जो इस तिथि तक अप्रतिभूत लेनदार नहीं है, को इस नोटिस को केवल सूचना उद्देश्यों के लिए मानना चाहिए और वह बैठक में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा।

कंपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों में भाग लेने वाले हितधारकों को ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए एक सुविधा प्रदान कर रही है, जो ई-वोटिंग द्वारा ई-मेल info@milkfoodltd.com के माध्यम से या तो पीडीएफ/जेपीजी/स्कैन किए गए छवि प्रारूप में मतदान कर सकते हैं या ऐसे सभी बैलट पोलिंग पेपर को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित बैठक में प्रस्ताव का आह्वान करने के बाद 5वीं मंजिल, 91, भंडारी हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली -110019 में अन्तरिती कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजा जा सकता है।

माननीय न्यायाधिकरण ने अधोहस्ताक्षरी को उक्त बैठकों के अध्यक्ष, अधिवक्ता श्री मनुज नागरथ को वैकल्पिक अध्यक्ष और कार्यरत कंपनी सचिव श्री पी.डी. शर्मा को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। समामेलन की योजना, यदि उपरोक्त बैठकों में अनुमोदित की जाती है, तो बाद में माननीय न्यायाधिकरण के अनुमोदन के अध्यधीन होगी।

न्यायमूर्ति रंजीत सिंह (सेवानिवृत्त) (बैठकों के लिए नियुक्त अध्यक्ष)

अगले साल से दिल्ली-एनसीआर में कोयले के इस्तेमाल पर पाबंदी

नई दिल्ली, 8 जून (भाषा)।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यएम) ने एक जनवरी, 2023 से पूरे दिल्ली-एनसीआर में औद्योगिक, घरेलू और अन्य कार्यों में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, ताप बिजली संयंत्रों में कम सल्फर वाले कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से छट दी गई है।

एनसीआर में औद्योगिक इकाइयों में सालाना लगभग 17 लाख टन कोयले का उपयोग किया जाता है, जिसमें अकेले छह प्रमुख औद्योगिक जिलों में लगभग 14 लाख टन कोयले की खपत होती है।

सीएक्यूएम ने तीन जून को जारी एक आदेश में कहा कि कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध एक अक्तूबर से पीएनजी बुनियादी

वाय् गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक जनवरी, 2023 से पूरे दिल्ली-एनसीआर में औद्योगिक, घरेलू और अन्य कार्यों में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। ताप बिजली संयंत्रों में कम सल्फर वाले कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से छूट दी गई है।

ढांचे और आपूर्ति वाले क्षेत्रों में और एक जनवरी 2023 से उन क्षेत्रों में लागू होगा जहां पीएनजी आपूर्ति अभी भी उपलब्ध नहीं है।

सीएक्यूएम ने कहा कि अगले साल एक जनवरी से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ईंधन के रूप में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आयोग ने इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए आम जनता और क्षेत्र के



विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित किए थे। कोयले पर प्रतिबंध लगाने को लेकर उसे बड़ी संख्या में सुझाव मिले।

सीएक्यूएम ने ऐसे सभी सुझावों और प्रस्तावों की जांच करने और उन पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। अपनी रिपोर्ट में, विशेषज्ञ समृह ने कोयले जैसे भारी प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को समाप्त करने और यथासंभव स्वच्छ ईंधन को अनिवार्य करने की पुरजोर सिफारिश की।

निगम जन सुनवाई में 190 शिकायतें, 26 का समाधान

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 8 जून।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की तरह एकीकृत नगर निगम की जन सुनवाई में तीन दिनों में 190 शिकायतें आईं जिसमें 26 शिकायतों को सनवाई स्थल पर ही समाधान कर दिया गया।

कूड़ा, अनिधकृत निर्माण, जहां-तहां मलबा डालने, मृत्यु प्रमाण पत्र, लाइसेंस, वर्षा जल संचयन, मोबाइल टावर और जीपीएफ स्थानांतरण जैसे कई शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों को तुरंत संबंधित अधिकारी को गंभीरता से लेते हुए समाधान के लिए भेज दिया जाता है। कुछ शिकायतों को अधिकारी तुरंत समाधान कर देते हैं। सुनवाई में शामिल होने वाले को संबंधित उपायुक्तों के दफ्तर से स्लिप लेकर शामिल होने कहा गया है। निगम ने सोमवार छह जून से आम नागरिकों की सुविधा के लिए निगम के सभी 12 क्षेत्रीय कार्यालयों में जन सुनवाई आरंभ की गई है। निगम द्वारा आरंभ की गई जन सुनवाई के माध्यम से नागरिकों ने क्षेत्रीय उपायुक्तों से अपनी शिकायतें साझा कर रहे हैं। सोमवार से लेकर बुधवार तक लगभग 190 शिकायतें सभी क्षेत्रीय उपायुक्तों द्वारा सुनी गई हैं जिसमे से 26 शिकायतों का निदान मौके पर ही कर दिया गया। निगम द्वारा जनसुनवाई के लिए दोपहर 12 से एक बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

OSBI

दूरभाष: 0120-2544468/70/71/72 फैक्स: 0120-2544469/71/74, ई-मेल: sbi.14702@sbi.co.in

आर ए सी पी सी, सी-03बी, सेक्टर-55, नोएडा-201301,

परिशिष्ट । । नियम-८ (1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भृति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक**, आरएसीपीसी— 1. सैक्टर—55. नोएडा का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार **श्रीमती पूनम अग्रवाल** और श्री विनोद अग्रवाल को एक मांग नोटिस दिनांक 27.10.2021 को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रू 4.99.296/- (रु. चार लाख निन्यान्वे हजार दो सौ छियान्वे मात्र) दिनांक 27.10.2021 से भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार / गारंटर तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के गथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 03.06.2022 को लिया है। शिष रूप से कर्जदार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ नेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **गारतीय स्टेट बैंक,** आरएसीपीसी-।, सैक्टर-55, नोएडा **के प्रमार वास्ते राशि रू** 4.99.296/- (रु. चार लाख निन्यान्वे हजार दो सौ छियान्वे मात्र) दिनांक 27.10.2021 से भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।


अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति पर मालिकाना हक श्रीमती पुनम अग्रवाल और श्री विनोद अग्रवाल सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश सम्पत्ति फ्लैट नं. 003, भूतल, एम.आई.जी टाईप, जे.एन.सी, कृष्णा हरिटेज, प्लॉट नं. 21, ब्लॉक—ए, शालीमार गार्डन एक्स—।।, गाँव पसौंदा, तह, और जिला गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 750 वर्ग फीट, चौहद्दी : पूरब में - प्लॉट नं. 20-ए, पश्चिम में - फ्लैट नं. 007 (भूतल) उत्तर में - फ्लैट नं. 001(भूतल), दक्षिण में - फ्लैट नं. 005(भूतल)

दिनांक : 03-06-2022, स्थान : नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक

प्रधानमंत्री



श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही भारी संख्या को देखते हुए मेरी आप सभी आत्मीय श्रद्धालुओं से अपील है कि चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले पर्यटन विभाग द्वारा संचालित https://registrationandtouristcare.uk.gov.in पोर्टल पर उपलब्धता को जांचते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर ही चारधाम यात्रा प्रारम्भ करें। साथ ही श्रद्धालुगण इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि अधिक ऊँचाई, ठण्ड व ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने और हृदय सम्बन्धी परेशानी होने पर यात्रा में आने से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य करायें। आप सभी से अनुरोध है कि चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशासन को अपना सहयोग दें। उत्तराखण्ड सरकार आपके स्वागत एवं सत्त सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। ூ

> पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

हेमकुंट साहिब यात्रा

के लिए अपना पंजीकरण कराने के उपरान्त यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है

आवश्यक सूचना

बिना <mark>रजिस्ट्रेशन</mark> किए चारधाम यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए यात्रा तब ही प्रारम्भ करें जब आपका र<mark>जिस्ट्रेशन</mark> हो गया हो।

चारधाम यात्रा करने के लिए पंजीकरण https://registrationandtouristcare.uk.gov.in पर किया जा सकता है।

स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें।

अति वृद्ध एवं बीमार व्यक्तियों एवं पूर्व में कोविड से ग्रसित व्यक्तियों के लिए यात्रा पर न जाना या कुछ समय के लिए स्थगित करना उचित होगा।

चारधाम यात्रा दीपावली तक होती है इसलिए अभी भीड़ से बचने के लिए अपनी यात्रा सुविधानुसार और पोर्टल पर उपलब्धता के अनुसार ही निर्धारित करें।

> किसी भी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी हेतु 104 एवं एम्बुलेंस हेतु 108 हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क करें।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी | uttarakhandtourism.gov.in

हेल्पलाइन नं. 0135-2559898, 2552627, 3520100, टोल फ्री नंबर 1364, अन्य राज्यों के लिए : +91 135 1364, समय-प्रात:7 बजे से रात्रि 9 बजे तक

दिनांक : 7 जून, 2022